

PROGRAM CODE

प्रोग्राम कोड

2 2

PAPER-I (पेपर-I)

(Question Booklet / प्रश्न पुस्तिका)

E

BOOKLET SERIES / पुस्तिका सीरीज

DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

जब तक कहा न जाए इस प्रश्न पुस्तिका को न खोलें।

Important: Please refer to your admit card while filling in details in this Question Booklet.**महत्वपूर्ण:** कृपया अपने प्रवेश पत्र को देखकर प्रश्न-पुस्तिका में जानकारी भरें।**The written test structure is as given below / लिखित परीक्षा की संरचना नीचे दी गई है :**

Test Components परीक्षा घटक	Question Nos. प्रश्न-संख्या	No. of Questions कुल प्रश्न	Questions to be attempted (Marks) कुल प्रश्न हल करने हैं (अंक)	Answers to be marked/ written on उत्तर किस पर लिखना है
Part-A : Multiple Choice Questions खण्ड-A : बहु वैकल्पिक प्रश्न	1-20	20	20 (20 marks/अंक)	OMR उत्तर पत्रक
Part-B : Multiple Select Questions खण्ड-B : बहु वैकल्पिक चयन प्रश्न	21-35	15	15 (30 marks/अंक)	OMR उत्तर पत्रक

Please read instructions on the back cover carefully. पिछले कवर पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़िए।**Use Blue/Black Ball Point pen to fill in the following particulars.**

कृपया निम्नलिखित जानकारियों को भरने के लिए नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Roll No / अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTE : Confirm that the 1st and 2nd digits of your Roll No. are 2 2 if not, bring it to the notice of the invigilator.
टिप्पणी: सुनिश्चित करें कि आपके अनुक्रमांक के प्रथम एवं द्वितीय अंक 2 2 हैं। यदि नहीं, तो इसे निरीक्षक की जानकारी में लाएं।

Name of Candidate / परीक्षार्थी का नाम :

Signature of Candidate

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

--

Signature of Invigilator

निरीक्षक के हस्ताक्षर

--

INSTRUCTIONS TO CANDIDATE/ उम्मीदवार के लिए निर्देश

- Fill up the necessary information on the cover of Question Booklet and the OMR Sheet before commencement of the test.
- The duration of the Paper-I is 60 minutes. Check for completeness of the Question Booklet immediately after opening.
- There are 35 objective type questions in Paper-I (Part-A and Part-B).
- Part-A contains 20 questions.** Each question has FOUR options (1), (2), (3) and (4). ONLY ONE of these four options is the correct answer. For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks: +1 If ONLY the correct option is chosen;
Zero Marks: 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks: -0.25 In all other cases.
- Part-B contains 15 questions.** Each question has FOUR options (1), (2), (3) and (4). ONE OR MORE THAN ONE of these four option(s) is (are) correct answer(s). For each question, choose option(s) corresponding to (all) the correct answer(s).
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks: +2 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen;

Contd.. on last cover page/ निर्देश पिछले कवर पृष्ठ पर

21/E/XXIII/III

1

13/(01)

PART-A / खण्ड—A

Directions (Questions 1-20): There are 20 Multiple Choice Questions (MCQs), and each question carries 1 mark. All questions are compulsory.

निर्देश (प्रश्न 1-20): ये 20 बहु वैकल्पिक प्रश्न (MCQs) हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- Which is the oldest form of composition of Hindustani vocal music?
(1) Tappa (2) Dhrupad (3) Thumri (4) Khayal
हिन्दुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप कौन-सा है?
(1) टप्पा (2) ध्रुपद (3) ठुमरी (4) ख्याल
- The Maori are the indigenous people of which nation?
(1) Indonesia (2) Ghana (3) Columbia (4) New Zealand
माओरी किस देश के मूल निवासी हैं?
(1) इंडोनेशिया (2) घाना (3) कोलंबिया (4) न्यूजीलैंड
- World's oldest cave painting was recently found in which country?
(1) India (2) China (3) Indonesia (4) Japan
दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में मिली है?
(1) भारत (2) चीन (3) इंडोनेशिया (4) जापान
- 'And the Show Goes On' was a documentary made by the BBC on which Indian filmmaker?
(1) Mrinal Sen (2) Raj Kapoor (3) Satyajit Ray (4) Dev Anand
'एंड द शो गोज ऑन' किस भारतीय फिल्म निर्माता पर बीबीसी द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री थी?
(1) मृणाल सेन (2) राज कपूर (3) सत्यजीत रे (4) देव आनंद
- The phenomenon that enables us to perceive motion is known as
(1) Entopic phenomenon. (2) Persistence of vision.
(3) Newton's first law. (4) Galileo's law of motion.
वह घटना जो हमें गति का बोध कराने में सक्षम बनाती है, कहलाती है
(1) एन्टोपिक घटना। (2) दृष्टि की निरन्तरता।
(3) न्यूटन का प्रथम नियम। (4) गैलीलियो की गति का नियम।
- Dogri is primarily spoken in which State/UT of India?
(1) Punjab (2) Meghalaya
(3) Gujarat (4) Jammu & Kashmir
डोगरी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है?
(1) पंजाब (2) मेघालय
(3) गुजरात (4) जम्मू और कश्मीर
- Leshalaptu is a folk dance of which Indian State?
(1) Nagaland (2) Kerala (3) Karnataka (4) Goa
लेशालापतु किस भारतीय राज्य का लोकनृत्य है?
(1) नागालैंड (2) केरल (3) कर्नाटक (4) गोवा

8. What is the full form of AR which is fast becoming popular in the entertainment industry?
(1) Actual Reality (2) Arterial Realism
(3) Artificial Realism (4) Augmented Reality
ए आर का पूर्ण रूप क्या है जो मनोरंजन उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है?
(1) अकचूयल रियलिटी (2) आटेरीयल रियलिज्म
(3) आर्टिफिसियल रियलिज्म (4) ओगमेंटेड रियलिटी
9. Which of the following States has the longest coastline?
(1) Andhra Pradesh (2) Kerala (3) Maharashtra (4) Tamil Nadu
निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
(1) आंध्र प्रदेश (2) केरल (3) महाराष्ट्र (4) तमिलनाडू
10. Which of the following is used in writing pencil?
(1) Graphite (2) Silicon (3) Mica (4) Phosphorus
लिखने वाली पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
(1) ग्रेफाइट (2) सिलिकॉन (3) माइका (4) फास्फोरस
11. Which was the most visited centrally-protected ticketed monument by foreign visitors, as per the Indian Tourism statistics 2022?
(1) Taj Mahal (2) Red Fort
(3) Group of monuments at Mamallapuram (4) Qutab Minar
भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार, विदेशी आगंतुकों द्वारा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला केंद्रीय संरक्षित टिकट वाला स्मारक कौन सा था?
(1) ताजमहल (2) लाल किला
(3) मामल्लपुरम में स्मारकों का समूह (4) कुतुब मीनार
12. NESTS is an autonomous institution working under which Union Ministry?
(1) Ministry of Education (2) Ministry of Tribal Affairs
(3) Ministry of Culture (4) Ministry of External Affairs
NESTS किस केंद्रीय मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है?
(1) शिक्षा मंत्रालय (2) जनजातीय मामलों का मंत्रालय
(3) संस्कृति मंत्रालय (4) विदेश मंत्रालय
13. The Indian Space Research Organization has collaborated with which country to explore the Venus and the dark side of the moon?
(1) USA (2) Japan (3) Australia (4) Russia
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है?
(1) यूएसए (2) जापान (3) ऑस्ट्रेलिया (4) रूस
14. Who among the following prefers to appear on screen in his own directorial work.
(1) Alfred Hitchcock (2) Fransis Ford Coppola
(3) Akira Kurosawa (4) Majid Majidi
निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन है। जिनकी अपनी फिल्मों में उनकी एक झलक दिखाई देती है।
(1) एल्फर्ड हिचकॉक (2) फ्रेंसिस फॉर्ड कोपोला (3) अकीरा कुरोसोवा (4) मज़ीद मज़ीदी

15. Which of the following statements is not correct.
(1) The President of India is the head of government
(2) Writ Petitions can be filed at the Supreme Court and High Court
(3) Access to drinking water is part of right to life
(4) International Peace is an aim mentioned in the constitution of India
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
(1) भारत के राष्ट्रपति सरकार के अध्यक्ष हैं।
(2) रिट याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दर्ज की जा सकती हैं।
(3) पीने का पानी जीवन के अधिकार का भाग है।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय शांति भारतीय संविधान में उल्लिखित एक उद्देश्य है।
16. What is the meaning of the word 'Moonlighting'?
(1) Lighting technique used by cinematographers.
(2) Doing additional second job.
(3) Driving at night.
(4) Enjoying the moonlight.
'मूनलाइटिंग' शब्द का अर्थ क्या है?
(1) सिनेमैटोग्राफरों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाइटिंग टेकनीक।
(2) अतिरिक्त दूसरा काम करना।
(3) रात में गाड़ी चलाना।
(4) चांदनी का आनंद लेना।
17. The Article 51A(h) in Indian Constitution is about
(1) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
(2) freedom to practice and propagation of religion subject to public order, morality and health.
(3) federalism as part of the basic structure.
(4) official language of the country.
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51ए(एच) के बारे में है
(1) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना।
(2) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अन्तर्गत धर्म का अनुसरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
(3) संघवाद बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।
(4) देश की राजभाषा।
18. FIH Men's World Cup 2023 Hockey Final was played between which countries?
(1) Australia vs New Zealand (2) Germany vs Belgium
(3) Argentina vs Netherlands (4) Spain vs South Africa
FIH Men's World Cup 2023 हॉकी फाइनल किन देशों के बीच खेला गया?
(1) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच (2) जर्मनी और बेल्जियम के बीच
(3) अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच (4) स्पेन और दक्षिण अफ्रीका के बीच
19. Which of the following is Motto of Paralympic?
(1) To touch the sky with glory (2) To free the oppressed
(3) Spirit in motion (4) Service before self
निम्नलिखित में से कौन सा पैरालिंपिक का आदर्श वाक्य है?
(1) टू टच द स्काई विद ग्लॉरी (2) टू फ्री द ऑप्रेसड (3) स्पीरिट इन मोशन (4) सर्विस वी फोर सल्फ
20. Which is the happiest country in the world according to the World Happiness Report 2022?
(1) Switzerland (2) New Zealand (3) Finland (4) Netherlands
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है?
(1) स्विट्जरलैंड (2) न्यूजीलैंड (3) फिनलैंड (4) नीदरलैंड

PART-B / खण्ड-B

Directions (Questions 21-35): These questions are Subject Specific. There are 15 Multiple Select Questions (MSQs), and each question carries 2 marks. Each question has four answer options and question may have one or more than one correct answer options. All questions are compulsory.

निर्देश (प्रश्न 21-35): ये प्रश्न, विषय विशिष्ट हैं। इसमें 15 बहु वैकल्पिक चयन प्रश्न (MSQs) हैं, और प्रत्येक प्रश्न, 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प हैं और प्रश्न के एक या एक से अधिक, सही उत्तर विकल्प हो सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

21. Which of the following is/are professional colour(s) grading software(s)?
 (1) Nucoda (2) Davinci Resolve (3) Baselight (4) Cantar x 3
 निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर है/हैं?
 (1) न्यूकोडा (2) डेविंसी रिजोल्व (3) बेसलाइट (4) कैंटर X 3
22. Exposure can be controlled by
 (1) f-stop. (2) shutter speed. (3) focal length. (4) view finder.
 एक्सपोजर को नियंत्रित किया जा सकता है -
 (1) एफ-स्टॉप (2) शटर गति (3) फोकल लेन्थ (4) व्यूफाइंडर
23. The sky looks blue because
 (1) blue has the shortest wavelength. (2) of scattering of light.
 (3) the colour temperature of blue is 5600 K. (4) red light has the shortest wave length.
 आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है
 (1) नीला सबसे कम वेवलेन्थ है। (2) प्रकाश का बिखराव
 (3) नीले का कलर टेम्परेचर 5600 K है (4) लाल की सबसे कम वेवलेन्थ है
24. Which of the following are present in the human eye?
 (1) Rods (2) Cones (3) Central fovea region (4) Vitreous humor
 निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आँख में विद्यमान है ?
 (1) रॉड्स (2) कोनस (3) सेंट्रल फोविया रीजन (4) विट्रियस ह्यूमर
25. Fill light is used to
 (1) manage the contrast. (2) separate the subject from background.
 (3) litup the background. (4) alter the colour.
 फिल लाइट का प्रयोग किया जाता है _____
 (1) कंट्रास्ट को प्रबंधित। (2) विषय को पृष्ठभूमि से अलग करना।
 (3) पृष्ठभूमि को प्रकाशित करना। (4) रंग बदलना।
26. Which of the following is/are correct?
 (1) When we add all Red + Green and Blue pigments we get black colour.
 (2) When we add all Red + Green and Blue light we get white colour.
 (3) The dimmer the light, the wider the iris of our eyes become.
 (4) Digital sensors inside DSLR cameras produce image as silver halide emulsion makes a latent image.
 निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?
 (1) जब हम सभी लाल + हरा और नीला रंग जोड़ते हैं, तो हमें काला रंग मिलता है।
 (2) जब हम सभी लाल + हरा और नीला प्रकाश जोड़ते हैं तो हमें सफेद रंग मिलता है।
 (3) प्रकाश जितना मंद होता है, हमारी आँखों की आयरीस उतनी ही चौड़ी हो जाती है।
 (4) डीएसएलआर कैमरों के अंदर डिजिटल सेंसर छवि उत्पन्न करते हैं क्योंकि सिल्वर हलाइड इमल्शन एक गुप्त छवि बनाता है।

27. When corrected to a normal image, under-exposure results in
 (1) more apparent grain. (2) less apparent grain.
 (3) richer blacks. (4) lower contrast.
 जब एक सामान्य छवि में सुधार किया जाता है, तो अंडर-एक्सपोजर से परिणाम होता है _____
 (1) अधिक अपरेन्ट ग्रेन (2) कम अपरेन्ट ग्रेन
 (3) रिचर ब्लैक्स (4) कम कंट्रास्ट
28. A plain mirror gives a/an
 (1) virtual image. (2) real image.
 (3) image flipped about horizontal axis. (4) image of the same size as the object.
 एक प्लेन मिरर _____ देता है/हैं।
 (1) आभासी छवि (2) वास्तविक छवि
 (3) छवि क्षैतिज अक्ष के बारे में फ्लिप करती है (4) वस्तु के समान आकार का प्रतिबिम्ब
29. A camera lens focused at 100 m means,
 (1) the focal length of the lens is 100 m.
 (2) the distance from the camera sensor and the object to be photographed is 100 m.
 (3) everything beyond 100 m will be in focus.
 (4) object at 100 m distance and same area in front and behind the object will be in focus and rest of the area will be out of focus.
 100 मीटर पर केंद्रित एक कैमरा लेंस का अर्थ है,
 (1) लेंस की फोकललैन्थ दूरी 100 मीटर है।
 (2) कैमरा सेंसर और फोटो खिंचवाने वाली वस्तु से दूरी 100 मीटर है।
 (3) 100 मीटर से आगे सब कुछ फोकस में होगा।
 (4) वस्तु 100 मीटर की दूरी पर है और वस्तु के आगे और पीछे समान क्षेत्र फोकस में होगा और शेष क्षेत्र फोकस से बाहर होगा।
30. A painter chooses a vertical canvas for painting portraiture. Why is it that cinema screen is always more in width than height?
 (1) Composing portraiture in vertical canvas curtail unnecessary space.
 (2) Human eyes give wide view in horizontal space than vertical.
 (3) Painters use a wide canvas when they paint a landscape.
 (4) Watching cinema in vertically tall frame will cause discomfort to the viewers.
 एक चित्रकार चित्र बनाने के लिए एक लंबवत कैनवास चुनता है। ऐसा क्यों है कि सिनेमा का पर्दा हमेशा ऊंचाई से अधिक चौड़ा होता है?
 (1) ऊर्ध्वाधर कैनवास में अनावश्यक स्थान की कटौती करता है।
 (2) मानव नेत्र ऊर्ध्वाधर की तुलना में क्षैतिज स्थान में विस्तृत दृश्य देते हैं।
 (3) चित्रकार एक परिदृश्य को चित्रित करते समय एक विस्तृत कैनवास का उपयोग करते हैं।
 (4) सिनेमा को लंबवत लंबे फ्रेम में देखने से दर्शकों को असुविधा होगी।
31. The colour of green chillies under sodium vapour lights will appear
 (1) more enriched. (2) same.
 (3) muddy brown. (4) there will be change in colour.
 सोडियम वेपर लाइट में हरी मिर्च का रंग दिखाई देगा _____
 (1) और समृद्ध (2) समान
 (3) मड्डी ब्राउन (4) रंग में परिवर्तन होगा

32. What shape(s) can be created out of the shadow of the cube on a plain wall which is at right angle to the light rays?

- (1) A rectangle (2) A square (3) A hexagon (4) A circle

प्रकाश किरणों के समकोण वाली समतल दीवार पर घन की छाया से कौन-सी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं?

- (1) एक आयत (2) एक वर्ग (3) एक षट्भुज (4) एक वृत्त

33. Statement X : Purpose of using spotlights on the performers on stage is to reveal them.

Statement Y : Mixture of red and green beams of light produces yellow.

Statement Z : In the profile of a very old man in silhouette, one can see all the details of wrinkles and facial features.

Choose the correct option(s)

(1) Statement X is True and Statement Y is True

(2) Statement Y is False and Statement Z is False

(3) Statement Z is False and Statement X is True

(4) Statement Z is True and Statement Y is True

कथन X: मंच पर कलाकारों पर स्पॉटलाइट्स का उपयोग करने का उद्देश्य उन्हें प्रकट करना है।

कथन Y: प्रकाश की लाल और हरी किरणों के मिश्रण से पीलापन पैदा होता है।

कथन Z: सिलहूट में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के प्रोफाइल में, झुर्रियाँ और चेहरे की विशेषताओं के सभी विवरण देख सकते हैं।

सही विकल्प/विकल्पों को चुनिए।

(1) कथन X सत्य है और कथन Y सत्य है।

(2) कथन Y गलत है और कथन Z गलत है।

(3) कथन Z गलत है और कथन X सत्य है।

(4) कथन Z सत्य है और कथन Y सत्य है।

34. 'Depth of Field' can be controlled by

(1) Shutter speed.

(2) Aperture.

(3) Focal length.

(4) Camera – subject distance.

'डेप्थ ऑफ फील्ड' को नियंत्रित किया जा सकता है।

(1) शटर स्पीड

(2) अपरचर

(3) फोकल लेन्थ

(4) कैमरा – सब्जेक्ट डिस्टेंस

35. What is clapboard used for?

(1) To give clues to the actor.

(2) To indicate shot numbers.

(3) To mark scene numbers.

(4) To sync picture and sound.

क्लैपबोर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है?

(1) अभिनेता को सुराग देना

(2) शॉट संख्या इंगित करने के लिए

(3) दृश्य संख्या को चिह्नित करने के लिए

(4) चित्र और ध्वनि को सिंक करने के लिए

Partial Marks: +1.5 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen;

Partial Marks: +1 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen, both of which are correct;

Partial Marks: +0.5 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option;

Zero Marks: 0 if none of the option is chosen (i.e., the question is unanswered).

Negative Marks: -0.25 In all other cases.

7. In case of ambiguity in translation, English version will be deemed authentic. Rough work to be done on Question Booklet.
 8. Objective type Answers are to be marked on the OMR Answer-Sheet, which is provided separately.
 9. Use only Blue/Black Ball Point Pen to darken the oval(s) for answering.
 10. Once oval(s) is/are darkened as answer to the question, it is final. Answer option(s) once darkened cannot be changed.
 11. Appropriate civil/criminal proceedings will be instituted against the candidate taking or attempting to take this Question Booklet or part of it outside the examination hall.
 12. The right to exclude any question(s) from final evaluation rests with the testing authority.
 13. Do not seek clarification on any item in the question booklet from the test invigilator. Use your best judgment.
1. परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पुस्तिका के कवर और ओएमआर शीट पर आवश्यक जानकारी भरें
 2. पेपर- I की अवधि 60 मिनट है। प्रश्न पुस्तिका खोलने के तुरंत बाद उसकी पूर्णता की जाँच करें।
 3. पेपर-I (भाग-ए और भाग-बी) में 35 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं।
 4. **भाग-ए में 20 प्रश्न हैं।** प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं। इन चार विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर के अनुरूप विकल्प का चयन करें।
 5. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:
पूर्ण अंक: +1 यदि केवल सही विकल्प चुना गया है;
शून्य अंक: 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात, प्रश्न अनुत्तरित है);
नकारात्मक अंक: -0.25 अन्य सभी मामलों में।
 6. **भाग-बी में 15 प्रश्न हैं।** प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं। इन चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक सही उत्तर हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए, (सभी) सही उत्तर (जवाबों) से संबंधित विकल्प (विकल्पों) को चुनें।
निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा:
पूर्ण अंक: +2 यदि केवल (सभी) सही विकल्प(विकल्पों) को चुना गया है (हैं);
आंशिक अंक: +1.5 यदि चारों विकल्प सही हैं लेकिन केवल तीन विकल्प चुने गए हैं;
आंशिक अंक: +1 यदि तीन या अधिक विकल्प सही हैं लेकिन केवल दो विकल्प चुने गए हैं, जो दोनों सही हैं;
आंशिक अंक: +0.5 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं लेकिन केवल एक विकल्प चुना गया है और यह एक सही विकल्प है;
शून्य अंक: 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात, प्रश्न अनुत्तरित है)।
नकारात्मक अंक: -0.25 अन्य सभी मामलों में।
 7. अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाएगा। प्रश्न पुस्तिका पर रफ कार्य करना है।
 8. वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर ओएमआर उत्तर-पत्रक पर अंकित किए जाने हैं, जो अलग से उपलब्ध कराए गए हैं।
 9. उत्तर देने के लिए अंडाकार (ओं) को काला करने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें।
 10. प्रश्न के उत्तर के रूप में एक बार अंडाकार (ओं) को काला कर दिया जाता है, तो यह अंतिम है। उत्तर विकल्प (विकल्पों) को एक बार काला करने के बाद बदला नहीं जा सकता।
 11. इस प्रश्न पुस्तिका या इसके किसी भाग को परीक्षा हॉल के बाहर ले जाने या ले जाने का प्रयास करने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध उपयुक्त सिविल/आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
 12. किसी भी प्रश्न(नों) को अंतिम मूल्यांकन से बाहर करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकारी के पास है।
 13. प्रश्न-पुस्तिका के किसी भी मद के संबंध में परीक्षा निरीक्षक से स्पष्टीकरण न मांगें। अपने सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करें।

This Question Booklet is to be returned on completion of the test. / परीक्षा पूरी होने पर यह प्रश्न पुस्तिका लौटा दें।